



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 वैशाख 1941 (श0)
(सं0 पटना 607) पटना, शुक्रवार, 10 मई 2019

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

6 मई 2019

सं० जी/विविध-20-19/2018-5004— युद्धाभ्यास, खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम 5, 1938) की धारा 9 की उप धारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र में 1 अक्टूबर, 2018 से आरंभ होने वाली और 30 सितम्बर, 2028 को समाप्त होने वाली दस वर्षों की अवधि के दौरान, मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत करते हैं। उक्त धारा की उपधारा-(1) के अपेक्षानुसार, उक्त क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करने वाली अधिसूचना सं०-10698 दिनांक 30.11.2018, जिसके भीतर 1 अक्टूबर, 2018 से आरंभ एवं 30 सितम्बर, 2028 को समाप्त होने वाली 10 वर्षों की अवधि के दौरान आवधिक रूप से मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत किया जा सकता है, दिनांक-03.12.2018 के बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है तथा उक्त धारा की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना के जारी करने का अभिप्राय प्रकाशित करने वाली अधिसूचना दिनांक-21.02.2019 के बिहार गजट के असाधारण अंक में अधिसूचना सं०-1617 दिनांक 13.02.2019 के द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

भूमि का नक्शा (लैंड प्लान) एवं क्षेत्र के ब्यौरे संबंधी अनुसूची का निरीक्षण जिला पदाधिकारी, गया के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

भू-क्षेत्र का ब्यौरा/चौहद्दी

ग्राम— बरवाडीह, थाना सं० 327, थाना—बाराचट्टी, जिला—गया में 107.48 एकड़ भूमि, 205, कोबरा बटालियन के सृजन के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अधिघोषणा सं०—15/डी०एल०ए०—गया सी०आर०पी०एफ० कोबरा/1304/रा० दिनांक 08.12.2009 के द्वारा हस्तान्तरित की गई है। उक्त बटालियन के परिसर में 100 मीटर बैफल फायरिंग रेंज निर्मित है, और यह चहारदिवारी से घिरा है। फायरिंग रेंज का ब्यौरा एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है:—

पूरब — चहारदिवारी।

पश्चिम — कैम्पस।

उत्तर — कैम्पस।

दक्षिण — जंगल क्षेत्र।

यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

सं० जी/विविध-20-19/2018-5004 दिनांक 06/05/2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

The 6th May 2019

No. G/Vividh-20-19/2018-5004—In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 9 of the Maneuvers, Field Firing and Artillery Practices Act, 1938 (Act 5 of 1938), the Governor of Bihar is pleased to authorize, during the period commencing from the 10th October, 2017 and ending on the 09th October, 2027, the carrying out of Field Firing and or artillery practice throughout the area described in the schedule hereto annexed. A notification, as required by sub-section (1) of the said section, defining the said areas as the area within which for a period of ten years commencing from the 1st October, 2018 and ending with 30th September, 2028 the carrying out periodically of the field firing and the artillery practice may be authorized, has been previously published in the extra-ordinary issue of the “Bihar official Gazette”, dated the 03-12-2018 with s.o. no 10698 dated the 30.11.2018 and a notification in respect of the same as required by sub-section (3) of the said section publishing the intention to issue this notification has been previously published in extra-ordinary issue of the “Bihar Gazette”, dated the 21-02-2019 with S.O. no.- 1617, dated the 13-02-2019.

The land plan may be inspected at the office of District Magistrate, Gaya.

Schedule**Details and boundary of the land-area**

107.48 acres of land in village-Barwadih, Thana No.-327, P.S.- Barachatti, District-Gaya, has been transferred to Central Reserve Police Force vide Declaration No. 15/D.L.A.- Gaya C.R.P.F. Cobra/1304/Ra. dated 08.12.2009 of the Revenue and Land reforms Department, Bihar, Patna for creation of 205-Cobra Battalion. 100 mt. Baffle Firing Range is constructed within the premises of the Battalion and is surrounded by a boundary wall. The details and boundary of Firing Range is given below :-

East - Boundary wall.

West -Campus.

North -Campus..

South -Forest area.

This notification shall come in to force from the date of issue.

By the order of the Governor,

(Sd) ILLEGIBLE,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 607-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>